

पत्रांक: 08/NBFC-01/2022(खंड) 1223/वि

बिहार सरकार

सार्वधिक वित्त निदेशालय (वित्त विभाग)

कमरा सं०-198, पटना सचिवालय, पटना-15

दूरभाष-0812-2215065, E-Mail-ID-instfin-bih@gov.in



मुकेश कुमार लाल,
विशेष सचिव।

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 21/8/2024

विषय:

सहारा इंडिया समूह के निवेशकों के दावा राशि भुगतान हेतु संचालित CRCS Sahara Refund Portal पर दावा प्रस्तुत करने हेतु संबंधित निवेशकों को जिला प्रशासन के Official Website के माध्यम से जागरूक करने के संबंध में।

महाराय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-20.04.2024 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए 37वीं राज्य स्तरीय सगन्ध सभिति की बैठक के बिन्दु-3.5 के अनुपालन में विशेष सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, वित्त विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-11.07.2024 को पूर्वाह्न 11 बजे आहूत समीक्षा बैठक में सहारा इंडिया समूह के निवेशकों के दावा राशि भुगतान हेतु संचालित CRCS Sahara Refund Portal पर दावा प्रस्तुत करने हेतु संबंधित निवेशकों को ऑनलाईन दावा प्रस्तुत करने संबंधी User Manual जिला प्रशासन के Official Website के माध्यम से जागरूक करने का निदेश समीक्षा बैठक से संबंधित कार्यवृत्त की कंडिका-3.2 में दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि सहारा इंडिया समूह के निवेशकों के दावा राशि भुगतान हेतु संचालित CRCS Sahara Refund Portal पर दावा प्रस्तुत करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित निवेशकों को जागरूक करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाय। CRCS Sahara Refund Portal पर दावा करने संबंधी प्रक्रिया सामग्री इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वनाथ झा

(मुकेश कुमार लाल)

विशेष सचिव।

134



Welcome To CHCS Sahara Refund Portal

सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर आपका स्वागत है।

Click on 'Depositor Registration' on the home page.

होम पेज पर 'जमाकर्ता पंजीकरण' पर क्लिक करें।

Fill the necessary details such as Membership Number, Aadhaar Number and your Aadhaar linked mobile number.

आवश्यक विवरण जैसे सदस्यता संख्या, आधार नंबर और अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भरें।

Click Get OTP and enter the OTP, you receive on your registered mobile number, and then select verify O P.

गेट ओटीपी पर क्लिक करें और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें, और फिर सत्यापित ओटीपी चुनें।

Upon login into the depositor registration, the depositor details entry screen will appear.

जमाकर्ता पंजीकरण में लॉगिन करने पर, जमाकर्ता विवरण प्रविष्टि स्क्रीन दिखाई देगी।

The first step shows UIDAI Declaration Screen. Go through the declaration and Accept the Terms and Conditions option

पहले चरण में युआईडीएआई घोषणा स्क्रीन दिखाई देगी। वहाका घोषणा पत्र पढ़ें और नियम और शर्तें स्वीकार करने के लिए क्लिक करें।

Move to next Page after Accepting the terms and conditions

नियम और शर्तें स्वीकार करने के बाद, अगले पृष्ठ पर जाएं।

The Personal Details Screen will appear next.

आगे व्यक्तिगत विवरण स्क्रीन दिखाई देगी।

1. Enter 12 Digit Aadhar Number and click on Get OTP. Depositor will receive OTP in the registerec Mobile Number
१२ अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। जमाकर्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा।
2. Enter OTP and Verify. The display shows Aadhar user details like First Name, Middle Name, Last Name, Date of Birth and Father/ Husband Name.

ओटीपी दर्ज करें, और फिर सत्यापित करें। डिस्प्ले पर आधार उपयोगकर्ता विवरण जैसे प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, जन्म तिथि और पिता/पत्नी का नाम दिखाई देगा।

3. It is optional for the User to enter their Email id
उपयोगकर्ता के लिये अपना ईमेल आईडी दर्ज करना वैकल्पिक है।

133



4. Enter Alternate Mobile Number and press on Save Mobile
वैकल्पिक मोबाईल नंबर दर्ज करें और सेव मोबाईल और ईमेल पर क्लिक करें

5. Press Next Button

अगला बटन दबाएँ

6. Now Enter Claim Details and upload document
अब क्लेम डिटेल्स दर्ज करें और दस्तावेज अपलोड करें।

Click on Add Claim Button and you will see all details in a grid and press next once all Claim details are added. In this screen multiple claim can be added.

ऐड क्लेम बटन पर क्लिक करें तब आपको नीचे दिए गए ग्रिड में क्लेम डिटेल्स समाविष्ट करने के बाद अगले बटन पर क्लिक करें। इसमें क्लेम दिखाई देंगे और सभी क्लेम टिपल विवरण समाविष्ट किये जा सकते हैं।

7. Download Prefilled Claim Request Form
पहले से भरा हुआ क्लेम अनुरोध प्रपत्र डाउनलोड करें।

8. Upload the required Documents

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

Upload Prefilled Form (Less than 3 MB file is only allowed) with Sign and click Finish

हस्ताक्षरके साथ पहले से भरा हुआ प्रपत्र(केवल 3 एमबी से कम साईज की अनुमति है।) अपलोड करें और फिनिश पर क्लिक करें।

Thank you Page will come with a Claim Request Number
एक क्लेम अनुरोध संख्या के साथ धन्यवाद पृष्ठ दिखाई देगा।

Please check the FAQ Page from the home page of CRCS Sahara refund portal, for any enquiries related to the registration process or how to initiate a claim.

कृपया पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित किसी भी पुछताछ या क्लेम करनेके तरीके के लिये सीआरसीएस सहार रिफंड पोर्टल के होम पेज से एफएक्यू पेज देखें।

होम पेज पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी देखें।

Also check Supreme Court Order, from the home page.

Thank you

127

उपयोगकर्ता मैनुअल - जमाकर्ता पुनः जमा करने का प्रवाह



Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

12 ✓
केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)



री: सबमिशन पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए कृपया नीचे दिए गए यूआरएल पर जाएं -

<https://mocratesubmit.crcs.gov.in/>

जमाकर्ताओं को निम्नलिखित अनुसूची का पालन करना होगा:

कुल दावा राशि	से
₹ 1,00,000 तक	14 मई, 2024
₹ 1,00,001 से ₹ 5,00,000 तक	20 th मई, 2024

पुनः सबमिट किए गए आवेदन पर 45 कार्य दिवसों के भीतर कार्रवाई की जाएगी

केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)



125

अनुक्रमणिका

1. लॉग इन पन्ना

- चरण 1: सीआरएन नंबर दर्ज करें - पृष्ठ 4
- चरण 1: सीआरएन नंबर दर्ज करें - पृष्ठ 4
- चरण 3: ओटीपी के लिए "मान्य करें" पर क्लिक करें - पृष्ठ 5
- चरण 4: यूआईडीएआई के नियम और शर्तें स्वीकार करें - पृष्ठ 5

2. व्यक्तिगत विवरण

- चरण 1: व्यक्तिगत विवरण पृष्ठ - पृष्ठ 6 पर जाएँ
- चरण 6: ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करें - पृष्ठ 6
- चरण 7: ई-केवाईसी सत्यापन के लिए ओटीपी दर्ज करें - पृष्ठ 7

3. दावा विवरण पृष्ठ

- चरण 1: दावे देखें और अद्यतन करें - पृष्ठ 9
- चरण 1: संसाधित दावे - पृष्ठ 10
- चरण 10: कमी संप्रेषित अनुभाग - पृष्ठ 11

4. दावा विवरण अपडेट करें

- चरण 11: दावा विवरण संपादित करना - पृष्ठ 12
- चरण 12: अद्यतन विवरण जमा करें - पृष्ठ 12

5. दस्तावेज़ अनुभाग अपलोड करें

- चरण 13: दस्तावेज़ अपलोड आवश्यकताएँ - पृष्ठ 15
- Step 14: Summary Review and Proceed - Page 15

6. पुनः सबमिशन फॉर्म जनरेट करें

- चरण 14: फॉर्म डाउनलोड करें और अपलोड करें - पृष्ठ 16
- चरण 14: अंतिम प्रस्तुतिकरण - पृष्ठ 16

7. पावती और रसीद पृष्ठ

124

केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)



Ministry of Financial Services, Government of India

चरण 17: सबमिशन विवरण सत्यापित करें - पृष्ठ 13

8. कमी समाधान चरण

- कमी कोड D002 - पृष्ठ 17

- कमी कोड D009, D010, D011 - पृष्ठ 21

- कमी कोड D017, D018 - पृष्ठ 23

9. भुगतान विफल

- कारण 1-8

-कारण नं. 9

-कारण नं. 10

10. कमी दावा प्रवाह

123



केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)

लोग इन पन्ना -

स्टेप 1 - लॉग इन करने के लिए अपना 14 अंकीय सीआरएन नंबर दर्ज करें।

सहारा रिफंड पोर्टल (RESUBMISSION)

1. This login is only for resubmission of Applications, those completed 45 days and depositors(s) communicated

2. If you are a first time user please register and submit your claims in the following Link: <https://mofund.crcs.gov.in/>

3. Please read user manual and FAQs carefully before login

4. Depositors may resubmit their claims as per following schedule

Aggregate Claim Amount	From	
Phase -1	₹ 0 to 10,000	15th Nov 2023
Phase -2	₹ 0 to 19,999	25th Nov 2023
Phase -3	All Eligible Depositors	Will be communicated soon

5. The resubmitted application will be processed within 45 working days

14 अंकीय सीआरएन दर्ज करें

धरण दो - दिखाए गए कैप्चा को दर्ज करें

सहारा रिफंड पोर्टल (RESUBMISSION)

1. This login is only for resubmission of Applications, those completed 45 days and depositors(s) communicated

2. If you are a first time user please register and submit your claims in the following Link: <https://mofund.crcs.gov.in/>

3. Please read user manual and FAQs carefully before login

4. Depositors may resubmit their claims as per following schedule

Aggregate Claim Amount	From	
Phase -1	₹ 0 to 10,000	15th Nov 2023
Phase -2	₹ 0 to 19,999	25th Nov 2023
Phase -3	All Eligible Depositors	Will be communicated soon

5. The resubmitted application will be processed within 45 working days

मन्य कैप्चा दर्ज करें

केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)



Ministry of Corporate Affairs, Government of India

चरण 3 - अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए "मान्य करें" पर क्लिक करें

MINISTRY GOVERNMENT OF INDIA

CRC'S SAHARA REFUND PORTAL (RESUBMISSION)
 For Refund of Deposits of Shares & Bonds of Listed Companies & Deposits
 1. Shareholder/Depositor of Listed Company 2. Investor/Member/Shareholder/Depositor of Public Company 3. Depositor of Listed Company of Public Company 4. For Withdrawal/Refund of Deposits/Shares/Bonds

OTC (Form No. 1) (For Refund of Deposits of Shares & Bonds of Listed Companies)

* Form Number (CIN) [Redacted]

OTC Form Number (CIN) of your Address (Form No. 1) (For Refund of Deposits of Shares & Bonds)

* Enter OTP [Redacted]

6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें

1. This page is only for Resubmission of Applications. Please completed all steps and document verification.
2. If you are a first time user please register and submit your details on the following link: [https://www.crc.gov.in/otc](#)
3. Please read user manual and FAQs carefully before login.
4. Creditors may initiate their claims as per following schedule:

	Aggregate Claim Amount	From
Phase - I	₹ 100 Cr. and below	18th Nov 2024
Phase - II	₹ 100 Cr. to ₹ 500 Cr.	24th Nov 2024
Phase - III	All eligible claimants	24th Dec 2024 onwards
5. The resubmitted application will be processed within 30 working days.

यूआईडीएआई घोषणा -

चरण 4 - आगे बढ़ने के लिए यूआईडीएआई के नियम और शर्तों को स्वीकार करें।

MINISTRY GOVERNMENT OF INDIA

CRC'S SAHARA REF AND NORMAL (RESUBMISSION)
 For Refund of Deposits of Shares & Bonds of Listed Companies & Deposits
 1. Shareholder/Depositor of Listed Company 2. Investor/Member/Shareholder/Depositor of Public Company 3. Depositor of Listed Company of Public Company 4. For Withdrawal/Refund of Deposits/Shares/Bonds

OTC (Form No. 1) (For Refund of Deposits of Shares & Bonds)

OTC Form Number (CIN) of your Address (Form No. 1) (For Refund of Deposits of Shares & Bonds)

* Enter OTP [Redacted]

नियम एवं शर्तों स्वीकार करें

Depositor consents for receiving and using data from Aadhaar

I hereby provide my consent for the use of my Aadhaar number and personal information for the purpose of electronic verification of my Customer eKYC verification.

By providing this consent, I acknowledge and agree to the following:

Purpose / Intention: The purpose of Aadhaar eKYC is to verify and authenticate my identity electronically for availing services or establishing a business relationship with the concerned entity/ institution.

Information Collection: I authorize the collection of my Aadhaar number and related personal information, such as name, date of birth, gender, and address, for the purpose of eKYC verification. This information will be used solely for verification and authentication purposes.

केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)



Ministry of Cooperatives, Government of India

व्यक्तिगत विवरण -

चरण 5 - व्यक्तिगत विवरण पृष्ठ पर जाने के लिए "अगला" पर क्लिक करें

www.pwssr.gov.in/entry of user

CHCS - CO-OPERA REFUND PORTAL (RESUBMISSION)
Ministry of Cooperatives, Government of India

1. I hereby provide my consent to the use of my Aadhaar number and personal information for the purpose of electronic Know Your Customer (eKYC) verification. By providing my consent, I acknowledge and agree to the following:
Purpose: I understand the purpose of Aadhaar eKYC is to verify and authenticate my identity electronically for availing services or establishing a business relationship with the concerned organization.
Information: I authorize the use of my Aadhaar number and related personal information such as name, date of birth, gender, and address, for the purpose of eKYC verification. I understand that this information will be used solely for verification and authentication purposes.

अगले पेज पर जाने के लिए यहां क्लिक करें

चरण 6 - आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने और ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करने के लिए "यहां क्लिक करें" पर क्लिक करें।

www.pwssr.gov.in/entry of user

CHCS - CO-OPERA REFUND PORTAL (RESUBMISSION)
Ministry of Cooperatives, Government of India


ओटीपी प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें




केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)

दावा विवरण पृष्ठ -

चरण 1 - अपने दावों को देखने और अपडेट करने के लिए दावा विवरण पृष्ठ पर जाने के लिए "अगला" पर क्लिक करें



दावा विवरण पृष्ठ



केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (सी: सबमिशन)



चरण 9 - संसाधित दावे - यहां आप जमाकर्ता को संसाधित की गई राशि, उनके बैंक का नाम और भुगतान तिथि का विवरण देख पाएंगे।

Processed Claims Total Processed Claim Amount : ₹27,000.00 Bank Name : STATE BANK OF INDIA Last Payment Date : 09-10-2023								
Sr	Society Name	Membership No.	Account No.	Receipt No.	Certificate No.	Account Opening Date	Status	Deposit
1	Sahara Credit Cooperative Society Limited	64741300516	6474780436		925010933560	2019-12-23	Claim Processed	₹ 27000
							Total	₹ 27000
							Paid	₹ 27000

Deficiency Communicated | Total Deficient Claim Amount : ₹33,33,000.00

कमी संप्रेषित -

चरण 10 - कमी संप्रेषित अनुभाग में उपयोगकर्ता उन दावों को देख पाएंगे जिनमें कमी के कारणों के साथ कमी मौजूद हैं।


Processed Claims Total Processed Claim Amount : ₹									
Deficiency Communicated Total Deficient Claim Amount : ₹29,500.00									
Sr	Society Name	Membership No.	Account No.	Receipt No.	Deficiency	Certificate No.	Deposit Date	Deposit	Reason
X 1	Sahara Credit Cooperative Society Limited (Lucknow)	10771601112	1077891160		Deficiency	0007315914	13-01-2021	₹ 93860	Deficiency Communicated &
X 2	Sahara Credit Cooperative Society Limited (Lucknow)	10771601112	10772602100		Deficiency	00059817234	20-09-2019	₹ 33100	Deficiency Communicated &
X 3	Sahara Credit Cooperative Society Limited (Lucknow)	10771601112	10779801807		Deficiency	00013200078	01-09-1921	₹ 11200	Deficiency Communicated &

देखने के लिए यहां क्लिक करें
कमी का कारण

केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)



Ministry of Corporate Affairs, Government of India



दावा विवरण अद्यतन करें -

चरण 11 - अद्यतन दावा विवरण पृष्ठ पर जाने के लिए पेंसिल आइकन पर क्लिक करें।



Name: Gunja, CRN NO: 23081303034767, Total Aggregate Amount: ₹ 88900

Processed Claims | Total Processed Claim Amount: 0

Deficiency Claims Initiated | Total Deficient Claim Amount: ₹88,900.00

S	Society Name	Membership No.	Account No.	Receipt No.	Dividends	Certificate No.	Deposit Date	Deposit ₹	Status	Action
X	Sahara Credit Cooperative Society Limited (Sahara)	10771001112	10770001107		Deficient	0007110001	15-01-2021	₹ 25200	Deficiency	Update
X	Sahara Credit Cooperative Society Limited (Sahara)	10771001112	10771001107		Deficient	00090011004	20-01-2021	₹ 24300	Deficiency	Update
X	Sahara Credit Cooperative Society Limited (Sahara)	10771001112	10770001107		Deficient	00013000000	01-02-2021	₹ 11300	Deficiency	Update

दावा विवरण संपादित/अद्यतन करने के लिए यहाँ क्लिक करें

केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)



सभी आवश्यक विवरण सही-सही भरें और "समीक्षा करें और पुनः सबमिट करें" पर क्लिक करें।

Update Claim Details

Society Name: Sahara Universal Society

PAN No.: 3481408216

Mutual Number: 3021796647

Certificate Number: 79100722754

Mutual Opening Date: 25/05/2016

Maturity Date: [Dropdown]

Deposit/Contribution Amount: 5000

Upload Receipt Certificate File: [Upload File]

अद्यतन विवरण प्रस्तुत करने के लिए यहां क्लिक

सभी आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरें। सिस्टम दर्ज की गई जानकारी को मान्य करेगा। यदि सभी विवरण सटीक और पूर्ण हैं, तो दावे को हरे टिक आइकन के साथ वैध के रूप में चिह्नित किया जाएगा। केवल वैध दावे ही आगे चरण पर आगे बढ़ सकते हैं।

1. Data Submission 2. Mutual Details 3. Registration 4. Mutual Processing Status 5. Mutual Processing Report

Name: Irfan Ansari, CRN NO: 23080100863901, Total Aggregate Amount: ₹ 25900

Processed Claims | Total Processed Claims Amount: 0

Deficiency Connected | Total Deficient Claim Amount: ₹25,900.00

Sr	Society Name	Membership No.	Account No.	Receipt No.	Deficiency	Certificate No.	Account Opening Date	Deposit ₹	Status	Act
1	Sahara Universal Multipurpose Society Limited (Bhopal)	995047600016		34024530076	Deficiency	467000116380	20-12-2017	₹ 25900	Processed	
Total								₹ 25900		



केंद्रीय राजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)

दस्तावेज़ अपलोड करें -

चरण 12 - "अपलोड दस्तावेज़" अनुभाग में उपयोगकर्ता को अगले पृष्ठ पर आगे बढ़ने के लिए सभी अनिवार्य फ़िल्ड भरना होंगे

Name: Irfan Ansari, CRN NO:-23080100863101, Total Aggregate Amount: ₹ 25000000

Processed Claims | Total Processed Claim Amount: 0

Deficiency Claim Amount: 0 | Total Deficient Claim Amount: ₹1,50,00,000.00

Upload Documents

Enter PAN No: PAN 99730

Upload PAN Copy: PAN X

Account More than 3 Labels Using the year of account made

Profession	Pr. Amount	-
Savings Bank	Own Savings	-
Remark	None	
Product	ITD File	+ -
Upload ITD Statement	Statement File	+ -
Other	Other File	+ -

चरण 13 - सभी विवरण अपडेट करने के बाद, 'अगला' पर क्लिक करें। एक सारांश पत्र और अपात्र दावों को प्रदर्शित करेगा। सारांश की समीक्षा करें, फिर "पुनः सबमिशन फॉर्म जनरेट करें" पृष्ठ पर आगे बढ़ने के लिए 'हाँ' पर क्लिक करें।

Sl. No.	Entity Name	Membership No.	Account No.	Product	Product Name	Product Category	Product Status	Product Type	Product Sub-Type	Product Code	Product Description
1	INDIA	4123456789	23456789	12345678	12345678	12345678	12345678	12345678	12345678	12345678	12345678

दावा आगे बढ़ाने के लिए "हाँ" पर क्लिक करें


Click on "Yes" to proceed

केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)




पुनः सबमिशन फॉर्म जनरेट करें -

चरण 14 - पुनः सबमिशन फॉर्म डाउनलोड करें और भरे और निर्देशानुसार पोर्टल पर वापस अपलोड करें।



चरण 15 - अंतिम दावा प्रस्तुत करने के लिए "ओके, आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें या वापस जाने और अद्यतन करने या यदि कोई कमी हो तो उसका समाधान करने के लिए "नहीं, रद्द करें" बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें: "ओके, आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है



केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (सी: सबमिशन)



www.sahara-refund.gov.in

चरण 3 - अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए "मान्य करें" बटन पर क्लिक करें

Claim Request

OTP Sent Successfully on Mobile No.

Verify OTP

6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें

Phase	Aggregate Claim Amount	Phase
Phase - 1	₹ 0 to ₹ 10,000	Phase - 1
Phase - 2	₹ 10,000 to ₹ 20,000	Phase - 2
Phase - 3	All Eligible Depositors	Phase - 3

The resubmitted application will be processed within 45 working days.

चरण 4 - पोस्ट लॉग-इन जमाकर्ता को नीचे दिए गए पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। जहाँ उपयोगकर्ता को नया आधार लिंकड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और सत्यापित करें बटन पर क्लिक करना होगा

Claim Request

OTP Sent Successfully on Mobile No.

Verify OTP

नया मोबाइल नंबर दर्ज करें और सत्यापित पर क्लिक करें



170

केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)




Ministry of Consumer Affairs, Government of India

चरण 5 - जमाकर्ता को उसके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा और फिर एक बार जब वह ओटीपी दर्ज करेगा और इसे सत्यापित करेगा तो उसे "मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक अपडेट हो गया" के रूप में एक पॉप अप मिलेगा।



ओके बटन पर क्लिक करते ही यूजर लॉग-आउट हो जाएगा।




108

केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)




Ministry of Cooperatives, Handloom & Handicrafts
Government of India

चरण 1 - यदि सोसायटी सदस्यता फॉर्म, खाता खोलने का फॉर्म अपलोड करती है तो पोर्टल में पुनः लॉगिन करके उपयोगकर्ता दावा संपादित कर सकता है और जमा प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा फिर "समीक्षा करें और सबमिट करें" बटन पर क्लिक करके उपयोगकर्ता दावा जमा कर सकता है।



चरण 2 - सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ता को "दावा सफलतापूर्वक अपडेट किया गया" पॉप-अप मिलेगा



107



Ministry of Banking and Finance, India
Government of India, New Delhi

राष्ट्रीय प्रजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)

चरण 3 - अगले बटन पर क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ता को हां/नहीं पुष्टिकरण पॉप-अप दिखाई देगा. हां बटन पर क्लिक करके उपयोगकर्ता अगले पृष्ठ पर रीडायरेक्ट कर सकता है।

Claim No.	Society Code	Membership No.	Account No.	Receipt No.	Company/Partners No.	Account Opening Date	Deposit Amount	Deposit Partial Paid	Loan Amount	Loan Repaid
✓ 1	8001	17101307315	17101307315		15101001100	30-03-2013	₹ 1000	₹ 0	₹ 0	₹ 0

दावा आगे बढ़ाने के लिए "हां" पर क्लिक

Please click 'Yes' to proceed
For any change you want to do click 'No' & update the details

कमी को ड D017, D018 - यदि नाम सहारा रिकॉर्ड में मौजूद नाम से मेल नहीं खाता है तो उपयोगकर्ता दावा संपादित नहीं कर पाएगा और 10 दिनों के बाद फिर से लॉगिन करना होगा

Deficiency Code	Deficiency Message	Action Item
D011	Society has not uploaded Scanned images of Account opening form/Membership Form Please contact Society	Sahara Society has been requested to upload your Membership Form/Account opening form. Kindly contact your Society for uploading your Membership Form/Account opening form in the Society Database. Since Sahara Society has uploaded your Membership Form/Account opening form, You may re-submit the claim. • Claim for this Membership Number/Account Number Combination already processed.
D017	Name as from portal is not matching with name with Sahara records	Your claim cannot be processed since name as per Aadhaar is not matching with the name present in the Sahara records. Kindly contact your respective society.

राष्ट्रीय प्रजीवक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)



चरण 3 - सभी विवरण अपलोड करने के बाद उपयोगकर्ता "अगला" बटन पर क्लिक कर सकता है और अपना सबमिट कर सकता है।

या

The screenshot shows a form with a progress bar at the top. Below the progress bar, there are several sections: 'Submitted Data', 'Deficiency Comments', and 'Digital Documents'. A button labeled 'अगले पेज पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें' (Click here to go to the next page) is highlighted with a red box and an arrow.

अगले पेज पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें

चरण 4 - सभी विवरण अपडेट करने के बाद, 'अगला' पर क्लिक करें। एक सारांश पान्न और अपात्र दावों को प्रदर्शित करेगा।

सारांश की समीक्षा करें, फिर "पुनः सबमिशन फॉर्म जनरेट करें" पृष्ठ पर आगे बढ़ने के लिए 'हां' पर क्लिक करें।

The screenshot shows a summary table with columns: Claim No., Policy No., Membership No., Amount, Status, Eligible, Receipt, Amount, Status, and Date. Below the table, a button labeled 'दावा आगे बढ़ाने के लिए "हां" पर क्लिक करें' (Click 'Yes' to proceed with the claim) is highlighted with a red box and an arrow.

Claim No.	Policy No.	Membership No.	Amount	Status	Eligible	Receipt	Amount	Status	Date
1	2276	214410007	2000000	CLAIMED	ELIGIBLE	1200	0	0	0

दावा आगे बढ़ाने के लिए "हां" पर क्लिक करें

104

केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)



Ministry of Consumer Affairs, Government of India

भुगतान विफल प्रवाह

यदि निम्नलिखित कारणों से भुगतान का प्रयास विफल हो गया:

एस.एन.	कारण	एस.एन.	कारण
1	आधार मैपिंग मौजूद नहीं है/आधार नंबर IAN से मैप नहीं किया गया है	6	केवाईसी दस्तावेज संबंधित
2	खाता बंद या स्थानांतरित	7	अमान्य बैंक पहचानकर्ता
3	आधार संख्या को खाता संख्या से मैप नहीं किया गया	8	अमान्य खाता (एनआई/पीपीएफ/सीसी/डबल/एफडी)
4	दावा न किए गए/डीईएएफ खाते	9	खाता बैंक द्वारा खाते पर निर्धारित अधिकतम क्रेडिट सीमा तक पहुंच गया
5	निष्क्रिय आधार	10	खाता अवरुद्ध या पूर्णतः हो गया

फिर उपयोगकर्ता को नीचे उल्लिखित कार्रवाई करनी होगी और अपनी पुष्टि प्रदान करनी होगी। एक बार पुष्टि प्राप्त हो जाने पर पुनर्भुगतान प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

A. कारणों से (1 से 8)

कार्रवाई मद: लाभार्थी को अपने खाते को आधार नंबर से जोड़ने के लिए उस बैंक शाखा में जाना चाहिए जहां उनका सक्रिय खाता है।

आधार सीसिंग के लिए फॉर्म पोर्टल पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है या संबंधित बैंक शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।



केन्द्रीय पीजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)

लॉग इन पत्रा

रण 1 - लॉग इन करने के लिए अपना 14 अंकी सीआरएन नंबर दर्ज करें।

MINI GOVERNMENT (RESUBMISSION)

1. This login is only for Resubmission of Application. Above mentioned 15 days and other conditions apply as per the terms and conditions of the portal.

2. If you are a first time user please register and submit your claim in the following link: [https://www.mca.gov.in](#)

3. Please read your manual and help, country master card.

4. Remember that you should file your claims as per following schedule:

Aggregate Claim Amount	From	
Phase 1	1.10.2018	15.10.2018
Phase 2	1.10.2018	31.10.2018
Phase 3	All eligible Depositors	Should be communicated soon

5. The Resubmission application will be processed within 45 working days.

14 अंकीय सीआरएन दर्ज करें

रण 2 - दिखाया गया कैप्चा कोड दर्ज करें

MINI GOVERNMENT (RESUBMISSION)

1. This login is only for Resubmission of Application. Above mentioned 15 days and other conditions apply as per the terms and conditions of the portal.

2. If you are a first time user please register and submit your claim in the following link: [https://www.mca.gov.in](#)

3. Please read your manual and help, country master card.

4. Remember that you should file your claims as per following schedule:

Aggregate Claim Amount	From	
Phase 1	1.10.2018	15.10.2018
Phase 2	1.10.2018	31.10.2018
Phase 3	All eligible Depositors	Should be communicated soon


5. The Resubmission application will be processed within 45 working days.

मान्य कैप्चा दर्ज करें


केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)



चरण 3 - अपने आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए "मान्य करें" पर क्लिक करें, फिर 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें और सत्यापित ओटीपी पर क्लिक करें। एक बार ओटीपी सत्यापित हो जाने पर उपयोगकर्ता लॉगिन हो जाएगा।




लॉगिन करने के बाद उपयोगकर्ता को नीचे दिए गए पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।



केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)




चरण 4 - यह देखने और पुष्टि करने के लिए हाइपरलिंक पर क्लिक करें कि आपने भुगतान विफलता के कारणों को सुधार लिया है



यूआईडीएआई घोषणा

चरण 5 - आगे बढ़ने के लिए यूआईडीएआई के नियम और शर्तों को स्वीकार करें।



108



केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)

चरण 6 - व्यक्तिगत विवरण पृष्ठ पर जाने के लिए "अगला" बटन पर क्लिक करें

INDIA GOVERNMENT OF INDIA

INDIA SAHARA REFUND PORTAL (RESUBMISSION)
 An Online Refund Portal for the Central Government of India
 An Online Refund Portal for the Central Government of India

G20

INDIA SAHARA REFUND PORTAL (RESUBMISSION)

INDIA DECLARATION Personal Details Final Payment Declaration

Declarant consent for testing and using data from Aadhaar

I hereby provide my consent for the use of my Aadhaar number and personal information for the purpose of electronic Know Your Customer (eKYC) verifications. By providing this consent, I acknowledge and agree in the following:

Purpose: I understand that the purpose of Aadhaar eKYC is to verify and authenticate my identity electronically for availing services or establishing a business relationship with the concerned organization/entity.

Information Collection: I authorize the collection of my Aadhaar number and related personal information, such as name, date of birth, gender, and address, for the purpose of eKYC verification. I understand that this information will be used solely for verification and authentication purposes.

Accepted On: 25-11-2022

अगले पेज पर जाने के लिए यहां क्लिक करें

व्यक्तिगत विवरण

चरण 7 - ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करने के लिए "गेट ओटीपी" बटन पर क्लिक करें।

INDIA GOVERNMENT OF INDIA

INDIA SAHARA REFUND PORTAL (RESUBMISSION)
 An Online Refund Portal for the Central Government of India
 An Online Refund Portal for the Central Government of India

G20

INDIA SAHARA REFUND PORTAL (RESUBMISSION)

INDIA DECLARATION Personal Details Final Payment Declaration

For any change in Aadhaar personal details Please click here to eKYC again

Get OTP

ओटीपी प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें



केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)

चरण 8 - अपने ई-केवाईसी को मान्य करने के लिए प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।

RESUBMISSIONS

Person Details

For any change in Aadhaar personal details Please click here to e-KYC again

6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें

चरण 9 - एक बार ओटीपी सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाने पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी आधार डेटाबेस से प्राप्त कर ली जाएगी।

Personal Details

For any change in Aadhaar personal details Please click here to e-KYC again

Details fetched from Aadhaar

Full Name: [Redacted] Email Address: [Redacted]

Home Address: [Redacted] State: [Redacted]

Date of Birth: [Redacted]

Address: [Redacted]

Address: [Redacted]

Address: [Redacted]

केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)



चरण 10 - "विफल भुगतान घोषणा" पृष्ठ पर जाने के लिए अगले बटन पर क्लिक करें।

LIFOA (NEFT/RTGS)
 Personal Details
 Failed Payment Declaration

For any change in Aafisher personal details Please click form to e-KYC again.

Click to return to KYC Address

Full Name	Enter Aadhaar	Enter PAN Number	<input type="checkbox"/>
Address/Residence Name	<input type="checkbox"/>		
State of Birth	<input type="checkbox"/>		
Mobile	<input type="checkbox"/>		
Aadhaar Seva - Bank	<input type="checkbox"/>		
Mobile Seva - Bank	<input type="checkbox"/>		

"विफल भुगतान घोषणा" पृष्ठ पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें

विफल भुगतान घोषणा पृष्ठ

इस पृष्ठ में आप संबंधित विफलता कारण के लिए की जाने वाली कार्रवाई देख सकते हैं।

भारत सरकार GOV.GOV/INTL/IC/IC/2014

2014-11-11 11:11:11

THE CENTRAL BANK OF INDIA (RESUBMISSION)
 A Corporation established by an Act of Parliament of India in 1947
 1. Reserve Bank of India, 2. Sahajam Universal Bank, 3. Sahajam Universal Bank, 4. Sahajam Universal Bank, 5. Sahajam Universal Bank, 6. Sahajam Universal Bank, 7. Sahajam Universal Bank, 8. Sahajam Universal Bank, 9. Sahajam Universal Bank, 10. Sahajam Universal Bank

Sl No	Payment Date	Amount	Bank Name	Payment Status	Full Address	Reason to be Filled
1	14-06-2023	₹14,000.00	N/A	Payment Failed	01-INDIA'S ADDRESS	Beneficiary details of the form to which payment was made on 14-06-2023 is not correct. The form for bank and account details of the Applicant must be filled. The form for bank and account details can be easily accessed on the portal or application form of the respective bank branch.

* Kindly visit the necessary bank website at the above shown to address the reasons for the payment failure. Your contribution is processed with the payment to account number to give to applicant.

* To verify the bank account details of the beneficiary, please refer to the bank website or contact the bank branch.



केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)

चरण 11 - एक बार कार्रवाई हो जाने के बाद आपको सहमति प्रदान करके पुष्टि करनी होगी

LRDAI Declaration Personal Details Failed Payment Declaration

Sl No.	Payment Date	Amount	Bank Name	Payment Status	Fail Reason	Action to be taken
1	14-08-2023	₹10,000.00	N/A	Payment Failed	PS-Not Pay Available	Beneficiary should visit the bank branch where they have an active account in order to get their account number or their Aadhaar number. The form for Aadhaar seeding can be easily accessed on the portal or obtained from the respective bank branch.

I hereby undertake that the details stated in the table above to address the reasons for the payment failure. Your coordination in ensuring that the payment re-attempts would be greatly appreciated.

I have taken appropriate steps to resolve the issue and request the portal for re-attempt payment to the Aadhaar Seeding Bank branch.

इस कार्रवाई के लिए सहमति स्वीकार करें

चरण 12 - सहमति स्वीकार करने के बाद आप किसी भी चिंता के लिए टिप्पणी बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं या बस तना कह सकते हैं कि "समस्या हल हो गई है" और सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें।

LRDAI Declaration Personal Details Failed Payment Declaration

Sl No.	Payment Date	Amount	Bank Name	Payment Status	Fail Reason	Action to be taken
1	14-08-2023	₹10,000.00	N/A	Payment Failed	PS-Not Pay Available	Beneficiary should visit the bank branch where they have an active account in order to get their account number or their Aadhaar number. The form for Aadhaar seeding can be easily accessed on the portal or obtained from the respective bank branch.

I hereby undertake that the details stated in the table above to address the reasons for the payment failure. Your coordination in ensuring that the payment re-attempts would be greatly appreciated.

I have taken appropriate steps to resolve the issue and request the portal for re-attempt payment to the Aadhaar Seeding Bank branch.

टिप्पणी सबमिट करने के लिए यहां

96

केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)



चरण 13 - आपको एक पुष्टिकरण पॉप अप प्राप्त होगा, जब 'ओके' बटन पर क्लिक किया जाएगा तो आप स्वयंत पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे।



A. कारण संख्या के लिए 9

कार्रवाई मद: लाभार्थी को अपने खाते को अपने आधार नंबर से जोड़ने के लिए उस बैंक शाखा में जाना चाहिए जहां उनका सक्रिय खाता है।

आधार सीडिंग के लिए फॉर्म पोर्टल पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है या संबंधित बैंक शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

यह भी जांच लें कि कहीं कोई क्रेडिट लिमिट तो नहीं है।

कृपया चरण 10 तक समान चरणों का पालन करें

केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)



Ministry of Education, Government of India
New Delhi - 110 022

चरण 11 एक धार खरवाई हो जाने के बाद आपको सहमति प्रदान करके पुष्टि करनी होगी

CBSE - HARA REFUND PORTAL (RESUBMISSION)

Ministry of Education, Government of India

Home | My Profile | My Applications | My Payments | My Account | My Settings | My Notifications

UDAN Declaration | Payment Details | Canceled Payment Declaration

Sr No.	Payment Date	Amount	Bank Name	Payment Status	Fail Reason	Action to be Taken
1	20-09-2023	15000.00	N/A	Payment Failed	SB Account holder has provided Credit card link on account by Bank.	Beneficiary should visit the bank branch where they have an active account in order to get their account updated to their Aadhaar number. The link for Aadhaar seeding can be easily accessed on the portal or SBAR and follow the respective steps through Aha QR check. Please refer to the user manual.

Every user should visit the necessary steps outlined in the table above to address the reasons for the payment failure. Once confirmation is provided with the payment information, the payment status will be updated to 'Success'.

इस कार्रवाई के लिए सहमति स्वीकार करें

चरण 12 सहमति स्वीकार करने के बाद आप किसी भी चिंता के लिए टिप्पणी बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं या बस इतना कह सकते हैं कि "समस्या हल हो गई है" और सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें।

CBSE - HARA REFUND PORTAL (RESUBMISSION)

Ministry of Education, Government of India

Home | My Profile | My Applications | My Payments | My Account | My Settings | My Notifications

UDAN Declaration | Payment Details | Canceled Payment Declaration

Sr No.	Payment Date	Amount	Bank Name	Payment Status	Fail Reason	Action to be Taken
1	20-09-2023	15000.00	N/A	Payment Failed	SB Account holder has provided Credit card link on account by Bank.	Beneficiary should visit the bank branch where they have an active account in order to get their account updated to their Aadhaar number. The link for Aadhaar seeding can be easily accessed on the portal or SBAR and follow the respective steps through Aha QR check. Please refer to the user manual.

Every user should visit the necessary steps outlined in the table above to address the reasons for the payment failure. Once confirmation is provided with the payment information, the payment status will be updated to 'Success'.

टिप्पणी सबमिट करने के लिए यहाँ क्लिक करें

74



केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री सबमिशन)

चरण 13 - आपको एक पुष्टिकरण पॉप अप प्राप्त होगा, जब 'ओके' बटन पर क्लिक किया जाएगा तो आप स्वागत पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे।

A. कारण संख्या के लिए 10

कार्रवाई मद: लाभार्थी को अपने सीडेड खाते में किसी भी रोक को हटाने के लिए उस बैंक शाखा का दौरा करना चाहिए जहां उनका सक्रिय खाता है।

कृपया चरण 10 तक समान चरणों का पालन करें

चरण 11 - एक बार कार्रवाई हो जाने के बाद आपको सहमति प्रदान करके पुष्टि करनी होगी

The screenshot shows the CRPS portal interface. At the top, it says 'GOVERNMENT OF INDIA' and 'CRPS - SAHARA REFUND PORTAL (RESUBMISSION)'. Below this, there are navigation tabs: 'Legal Declaration', 'Personal Details', and 'Final Payment Confirmation'. A table displays payment details:

Sl No	Payment Date	Amount	Mode/Type	Account Number	Full Name	Approval Status
1	29-10-2022	116200.00	Bank	Payment For	SHARDA, SURESH CHANDRAN	Final approval pending for transfer of money from your account to bank. It will take 3-5 working days.


Below the table, there is a section for 'Final Payment Confirmation' with a 'Consent' checkbox. A callout box with an arrow points to this section, containing the text: 'इस कार्रवाई के लिए सहमति स्वीकार करें' (Consent for this action).

केन्द्रीय राजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)




Ministry of Communications, Government of India

चरण 12 - सहमति स्वीकार करने के बाद आप किसी भी चिंता के लिए टिप्पणी बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं या बस बताना कह सकते हैं कि "समस्या हल हो गई है" और सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें।



चरण 13 - आपको एक पुष्टिकरण पॉप अप प्राप्त होगा, जब 'ओके' बटन पर क्लिक किया जाएगा तो आप स्वागत पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे।



92


केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल (री: सबमिशन)



Ministry of Consumer Affairs, Government of India

कमी दावा प्रवाह -

अगर दावे में कोई कमी है तो आपको कमी वाले लिंक पर क्लिक करना होगा. यदि वह पोर्टल के अनुसार पात्र है और दावा संपादित कर सकता है, तो आपको यूआईडीआई घोषणा पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।



दावे को संपादित करने के लिए इस चरण का संदर्भ लें।

यदि वह पात्र नहीं है तो उपयोगकर्ता को नीचे पॉप अप प्रदर्शित किया जाएगा।

